



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2008/पौष 19, 1929

No. 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2008/PAUSA 19, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

का.आ. 69(अ).—यतः मै. स्टर्लिंग एसईजेड प्रा. लि., जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में जंबुसर, जिला भरुच में बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने गुजरात राज्य में जंबुसर, जिला भरुच में बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य में वलिपोर एवं सरोद गाँवों, तालुक जंबुसर, जिला भरुच में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	गाँव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	वलिपोर	190	685-53-00
2.	सरोद	938/1, 938/3, 938/4, 938/5	577-47-17
कुल			1263-00-17

[फा. सं. 2/288/2006-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

S.O. 69(E).—Whereas M/s. Sterling SEZ Private Limited, a Private Organization in the State of Gujarat, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a multi-product Special Economic Zone at Jambusar, District Bharuch, in the State of Gujarat;

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the multi-product Special Economic Zone at Jambusar, District Bharuch, in the State of Gujarat on 1st October, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Villages Valipor and Sarod, Taluka Jambusar, District Bharuch, in the State of Gujarat, comprising of the Survey numbers and the area given below, as a Special Economic Zone :—

TABLE

S. No.	Villages	Survey numbers	Area (in hectares)
1.	Valipor	190	685-53-00
2.	Sarod	938/1, 938/3, 938/4, 938/5	577-47-17
TOTAL			1263-00-17

[F. No. 2/288/2006-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.